



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1798]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939

No. 1798]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASADHA 6, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

का.आ. 2019(अ).—विनाशक कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2017 कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय-2 में, खंड-9 (1 और 3) से संबंधित वर्तमान प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

‘ 9. इमारती लकड़ी और लकड़ी/बांस के उत्पादों का आयात :

(1) इमारती लकड़ी और लकड़ी/बांस उत्पाद का कोई भी पारेषण भारत में तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक ऐसा पारेषण निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो, अर्थात्:-

- अनुसूची-VI के अंतर्गत सूचीबद्ध इमारती लकड़ी और लकड़ी/बांस प्रजाति के अतिरिक्त ऐसे किसी पारेषण का भारत में आयात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह खंड 3(7) के उपबंधों को पूरा न करता हो।
- छाल सहित अथवा छाल रहित इमारती लकड़ी और लकड़ी/बांस के निर्यात से पूर्व उसका 48 जी/एम³ मिथाइल ब्रोमाइड से 21 सेंटीग्रेड या उससे अधिक या उसके समकक्ष तापमान पर प्रधूमन किया जाएगा या वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार किया जाएगा और उस उपचार को निर्यातकर्ता देश में उसके पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित किया जाएगा।

- (iii) छाल सहित अथवा छाल रहित इमारती लकड़ी अथवा चीरी गई अथवा आकारयुक्त लकड़ी के निर्यात से पूर्व या तो उसका उपर्युक्त के अनुसार प्रधूमन किया जाएगा अथवा उसे 56 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 30 मिनट (लकड़ी के कोर तापमान) तक भट्टी में सुखाया जाएगा अथवा उसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 30 मिनट तक (लकड़ी के कोर तापमान) उष्ण उपचार किया जाएगा और किए गए उपचार को निर्यातकर्ता देश द्वारा जारी उसके पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर उसे पृष्ठांकित किया जाएगा।
- (iv) लकड़ी/बांस के बने उत्पादों जैसे विनिर्मित/तैयार/हस्तशिल्प/फर्नीचर/बढ़ईगिरी अथवा बढ़ईगिरी से बनाई गई वस्तुओं(खिड़कियां/दरवाजे/शटर्स/फोटो फ्रेम/पर्दे की राड/बक्से/छप्पर आदि) वाहन (चप्पू नाव, वाहन की छत, ट्रेलर आदि) बगीचे की वस्तुएं/घरेलू सामान/संगीत वाद्ययंत्र/खेलकूद का सामान/औजार/खिलौने/फूलदान/लकड़ी का रेशा/छाल रहित लकड़ी की सूखी शाखाएं/कोन/टोकरी आदि का विनिर्माण/दस्तकारी/तैयार करने की प्रक्रिया से पूर्व एनएपी पर 48 जी/एम³ मिथाइल ब्रोमाइड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान पर प्रधूमन/उपचार किया जाएगा अथवा उसे 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट (लकड़ी के कोर तापमान) तक भट्टी में सुखाया जाएगा अथवा उसका उष्ण उपचार किया जाएगा अथवा 25 के ग्रे में अथवा उसके समकक्ष गामा किरणन किया जाएगा अथवा वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार किया जाएगा और उस उपचार को निर्यातकर्ता देश में उसके पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित किया जाएगा।

2. छाल रहित इमारती लकड़ी अथवा चीरी हुई/अकारयुक्त लकड़ी और लकड़ी/बांस से बने उत्पादों के कंटेनर में रखे कार्गो की जलपोत से कंटेनरों से उतराई के बाद संबंधित वनस्पति संगरोध केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशन अथवा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के पत्तन पर किसी प्राधिकृत वनस्पति संगरोध अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा।

3. अनुसूची-VI में संशोधन- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची-VI में:

(i) विद्यमान प्रविष्टियों (iii) के पश्चात 'उपभोग हेतु सब्जियां' श्रेणी के लिए प्रविष्टि (iii) के सम्मुख कॉलम 3 में 'एस्पारागस आफिसिनलिस (एस्पारागस)' के संबंध में और कॉलम (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में क्र.सं. 38 के सम्मुख क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां दर्ज की जाएं, नामतः -

उत्पत्ति देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशेष शर्त
4	5	6
(iv) भूटान	निम्नलिखित से मुक्त: संगरोध बीज बीज, मृदा और पादप अवशेष	सामग्री को पैकिंग से पहले स्वच्छ जल से धोया जाना चाहिए। उपर्युक्त शर्त को उत्पत्ति देश/पुनः निर्यात के समय पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(ii) मद (v) के पश्चात (उपभोग के लिए शुष्क मेवे (छिलके वाले और बिना छिलके) श्रेणी के लिए प्रविष्टि (ii) के सम्मुख कॉलम 3 में जुगलानस एसपीपी (अखरोट) के संबंध में, क्रम संख्या 184 के सम्मुख, और कॉलम (4), (5) और (6) उससे संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां दर्ज की जाएं, नामतः:-

उत्पत्ति देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष शर्त
4	5	6
(vi) किर्गीस्तान	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एरसोवियलामुस्कुलाना (एसियन अखरोट मोठ) (ख) साइडियापोमोनेला (अखरोट वर्म)	21 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक अथवा उसके समानान्तर तापमान पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन। अथवा

	(ग) ओफियोग्नोमोनियलेप्टोस्टाइला (अखरोट एन्थ्राक्नोस)	कम से कम 5 से सात दिन के लिए 9जी ग्राम प्रति मीट्रिक टन एल्यूमिनियम फोस्फोइड के साथ धूमन। इस उपचार को उत्पत्ति देश/पुनःनिर्यात देश में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित होना चाहिए।
--	---	---

(iii) क्रम संख्या 310 के ट्रिटिकम प्रजाति (गेहूँ) से संबंधित कॉलम सं. (3) में उल्लिखित प्रविष्टि को मद सं. (i) नम्बर दिया जाएगा और मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद सं. (3), (4), (5) और (6) से संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः निम्नानुसार अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात्-

वनस्पति सामग्री की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में समाविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात के लिए विशेष शर्तें
(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) उपभोग के लिए आटा	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त: भंडारण नाशीजीव	कम से कम 5 दिन के लिए 9 ग्राम प्रति मीट्रिक टन पर एल्यूमिनियम फास्फाइड से प्रधूमन। उक्त उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यातकर्ता देश से जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 778 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

क्र. सं.	वनस्पति प्रजाति	वनस्पति सामग्री की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में समाविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात के लिए विशेष शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
779	लकड़ी/बांस के उत्पाद	छाल रहित लकड़ी/बांस के बने उत्पादों जैसे विनिर्मित/तैयार/हस्तशिल्प/फर्नीचर/बढ़ईगिरी अथवा बढ़ईगिरी से बनाई गई वस्तुओं(खिड़कियां/दरवाजे/शर्टर्स/फोटो फ्रेम/पर्दे की राड/बक्से/छप्पर आदि) वाहन (चप्पू नाव, वाहन की छत, ट्रेलर आदि) बगीचे की वस्तुएं/घरेलू सामान/संगीत वाद्ययंत्र/खेलकूद सामान/औजार/खिलौने/फूलदान/लकड़ी का रेशा/छाल रहित लकड़ी की सूखी शाखाएं/कोन/टोकरी आदि	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त: (क) संगरोध नाशीजीव (ख) छाल (ग) मिट्टी दूषण (घ) कोई अन्य संयंत्र मलबा	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापमान पर 24 घंटे तक 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा प्रधूमन। (ii) 56 डिग्री सेंटीग्रेड (लकड़ी के कोर तापमान) पर 30 मिनट के लिए भट्टी में सुखाना या 56 डिग्री सेंटीग्रेड (लकड़ी के कोर तापमान) पर 30 मिनट के लिए गर्म उष्ण उपचार या (iii) 25 के ग्रे में अथवा उसके समकक्ष गामा किरणन अथवा वनस्पति संरक्षण

					सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार उक्त उपचार विनिर्माण/रोपण प्रक्रिया से पूर्व किया जाएगा और उसे निर्यातकर्ता देश/पुनः निर्यातकर्ता देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
--	--	--	--	--	--

[मि. सं. 8-21/2017-पीपी-II]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पादप संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322(अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3(अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413(अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192(अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248(अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364(अ) और दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344(अ) और दिनांक 15.05.2017 के का.आ. 1475(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2017

S.O. 2019(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

- Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause 9(1 & 3) shall be replaced with the following entries, namely:-

‘9. Import of Timber and Wood/Bamboo products:

(1) No consignment of timber and wood/bamboo products shall be brought into India unless such consignment fulfils the following conditions, namely:-

- (i) No consignment of timber and wood/bamboo species other than those listed under Schedule-VI shall be imported into India unless the provisions of Clause 3(7) are fulfilled.
- (ii) the timber and wood/bamboo with or without bark shall be fumigated prior to export with methyl bromide at 48 g/m³ for 24 hrs at 21°C or above or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser and the treatment shall be endorsed on the Phytosanitary Certificate issued thereof at the country of export;
- (iii) the timber or sawn or sized wood with or without bark prior to export shall be either fumigated as above or kiln dried at 56°C for 30 minutes (core temperature of wood) or heat treated at 56°C for 30 minutes (core temperature of wood) and the treatment shall be endorsed on the Phytosanitary Certificate issued thereof at the country of export.
- (iv) Wood/Bamboo based products such as manufactured/ finished/ handicrafts/ furniture/ joinery and articles from carpentry (windows/doors/ shutters/photo frames/ curtain rods/boxes/ thatch etc)/ conveyances (row boats, vehicle decks, trailers etc)/ garden items/house hold articles/ musical instruments/ sporting equipments/ tools/toys/flower vase/ wood fiber/ woody dry branches without bark/ cones/baskets etc./, shall be fumigated/treated prior to manufacturing/crafting/ finishing process etc., with methyl bromide at 48 g/m³ for 24 hrs at 21°C or above at NAP or kiln dried or heat treated at 56°C for 30 minutes (core temperature of wood) or Gamma irradiation at 25 kGray or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser and the treatment shall be endorsed on the Phytosanitary Certificate issued thereof at the country of export;

(2) The containerized cargo of timber or sawn/sized wood without bark and wood/bamboo based products shall be inspected by an authorized Plant Quarantine Officer after unloading of the containers from the ship at the port of Container Freight Station or Inland Container Depots under the jurisdiction of concerned Plant Quarantine Station.’

3. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003-

(i) Against Serial No. 38 relating to “*Asparagus officinalis* (Asparagus)” in column 3 against the entry (iii) for the category ‘vegetables for consumption’ after the existing entries (iii) and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
(iv) Bhutan	Free from : Quarantine weed seeds, soil and plant debris	The commodity shall be washed with clean water before packing. The above condition shall be endorsed on phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

(ii) Against serial number 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3), against entry (ii) for the category ‘Dry fruits for consumption(shelled and unshelled)’ after item (v) and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
(vi) Kyrgyzstan	Free from: (a) <i>Erschoviellamusculana</i> (Asian walnut moth) (b) <i>Cydiapomonella</i> (walnut worm)	Fumigation with Methyl Bromide at 48 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof. Or Fumigation with Aluminum Phosphide (ALP)

	(c) <i>Ophiognomonia leptostyla</i> (walnut anthracnose)	at 9 g gm/ metric ton for minimum 5-7 days. The treatment shall be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
--	--	--

(iii) Against serial no.310, relating to *Triticum spp.*(Wheat) in column (3), the entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns(3), (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted namely:-

Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(3)	(4)	(5)	(6)
'(ii) Flour for consumption	Any country	Freedom from: Storage pests	Fumigation with Aluminum Phosphide (ALP) at 9 gm/metric ton for minimum 5 days. The treatment shall be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(iv) After serial number 778 and the entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:-

S. No.	Plant Species	Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
779	Wood/ bamboo products	Wood/Bamboo products without bark such as manufactured/ finished/ handicrafts/ furniture/ joinery and articles from carpentry (windows/doors/ shutters / photo frames/ curtain rods/boxes/ thatch etc)/ conveyances (row boats, vehicle decks, trailers etc)/ garden items/house hold articles/ musical instruments/ sporting equipments/ tools /toys/flower vase/ wood fiber/ woody dry branches without bark/ cones/baskets etc.	Any Country	Free from: a) Quarantine pests b) Bark c) Soil contamination d) Any other plant debris	(i) Fumigation with methyl bromide at 48 g/m ³ for 24 hrs at 21°C or above or (ii) Kiln dried at 56°C for 30 minutes (core temperature of wood) or heat treated at 56°C for 30 minutes (core temperature of wood) or (iii) Gamma irradiation at 25 kGray or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser The treatment shall be carried out prior to manufacturing/ grafting process and shall be endorsed on the Phytosanitary Certificate issued thereof at the country of export/re-export.

[F. No. 8-21/2017-PP.II]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated

6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. dated 2248 dated 29th June, 2016, S.O. No.2453 dated 5th July, 2016, S.O. no.2614 dated 5th August, 2016, S.O. No. 264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017 and S.O. 1475 (E) dated 15th May, 2017.